



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/फाल्गुन 8, 1939

No. 748]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/PHALGUNA 8, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 27 फरवरी 2018

का.आ. 847 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.1983 (अ) तारीख 23 जून 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (त्), तारीख 23 जून 2017 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के बारंगल (पट्टण) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 के 122.200 कि.मी. से 150.000 कि.मी. (यादागिरी-बारंगल सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुसूचण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन 4 जुलाई 2017 तारीख को “द हिन्दू” और “नमस्ते तेलंगाना” में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के वारंगल (पट्टण) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163 के 122.200 कि.मी. से 150.000 कि.मी. तक (यादागिरी-वारंगल सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

| क्रम संख्या | जिला का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी में) | भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
|-------------|----------------|--------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | वारंगल (पट्टण) | 1. वारंगल | पैडीपल्ली | 605/1/2 | पट्टा | शुष्क | 556.46 | बुदे अन्नादेवी |
| | | | | 605/1/3 | पट्टा | शुष्क | 50.59 | बुदे अन्नादेवी |
| | | | | 606/1/2 | पट्टा | शुष्क | 910.57 | इट्टावेनि सुदाकर गंडला श्रीनिवास बुदे अन्नादेवी |
| | | | | 606/1/3 | पट्टा | शुष्क | 252.93 | इट्टावेनि सुदाकर गंडला श्रीनिवास बुदे अन्नादेवी |
| | | 2. खजीपेट | रामपूर | 554/1 | पट्टा | शुष्क | 1517.62 | कामिडि नरसिम्हा रेड्डी कोथपल्ली वेंकटय्या जुसूतुला राजीरेड्डी |
| | | | | | कुलयोग | | 3288.17 | |

[फा. सं. भारास्रा/पीआईयू-वरन्गल/एलए/वारंगल/2016]

राजेश गुप्ता, उपसचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February 2018

S.O. 847 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1983 (E) dated.23rd June, 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.163 on the stretch of land from Km.122.200 to Km.150.000 (Yadagiri-Warangal Section) in Warangal (Urban) District in the State of Telangana.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindhu” and “Namaste Telangana” both dated.04th July, 2017; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.122.200 to Km.150.000 (Yadagiri-Warangal Section) on the National Highway No.163 in the State of Telangana.

| Serialnumber | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in Square metres | Name of the land owner/Interested persons |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Warangal (Urban) | 1. Warangal | Paidipally | 605/1/2 | Patta | Dry | 556.46 | Budde Annadevi |
| | | | | 605/1/3 | Patta | Dry | 50.59 | Budde Annadevi |
| | | | | 606/1/2 | Patta | Dry | 910.57 | Ittaneni Sudhakar Gandla Srinivas Budde Annadevi |
| | | | | 606/1/3 | Patta | Dry | 252.93 | Ittaneni Sudhakar Gandla Srinivas Budde Annadevi |
| | | 2. Kazipet | Rampur | 554/1 | Patta | Dry | 1517.62 | Kamidi Narsimha Reddy Kothapalli Venkataiah Junnuthula Rajireddy |
| | | | | TOTAL | | | 3288.17 | |

[F. No. NHAI/PIU/WGL/LA/WGL/2016]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.